



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 अग्रहायण 1932 (श0)  
(सं0 पटना 787) पटना, सोमवार 20 दिसम्बर 2010

---

सं0 2/सी0- 109/2009-सा0प्र0-11054

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

2 नवम्बर 2010

श्री सुरेन्द्र राय (बि0प्र0से0), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी (अररिया) को इंदिरा आवास योजना हेतु आवंटित राशि रु0 8,42,41,222 रु0 राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं जमाकर डेहटी पैक्स में जमा कर इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, इंदिरा आवास मद की राशि के दुरुपयोग, गबन तथा कदाचार का मार्ग प्रशस्त करने तथा इंदिरा आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता बरतने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 353 दिनांक 29 जनवरी 2009 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या 9422, दिनांक 18 सितम्बर 2009 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी।

2. श्री राय द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध दायर सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या 16089/2010 में दिनांक 05 अक्टूबर 2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार, पटना के स्तर

से आदेश संख्या 11022 दिनांक 29 अक्टूबर 2010 पारित किया गया। मुख्य सचिव द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में श्री राय को तात्कालिक प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

3. सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि श्री राय के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन तक इन्हें किसी वित्तीय जिम्मेवारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा।

4. श्री राय की निलंबन अवधि के विनियमन एवम् वेतन के संबंध में इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवम् फौजदारी मुकदमों के फलाफल के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 787-571+10-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**